

# शब्द, पद और पदबंध

रचनाकार - प्रौमिला अय्यर

# शब्द

---

- ❖ एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र, सार्थक ध्वनि
- ❖ उदाहरण -
  - ❖ राम
  - ❖ स्कूल
  - ❖ बुद्धिमान

# शब्द के भेद

---

## अविकारी

क्रिया - विशेषण

स्मुच्चयबोधक

संबंधबोधक

विस्मयादिबोधक

## विकारी

संज्ञा

सर्वनाम

क्रिया

विशेषण



# पद

- ❖ जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तब ये स्वतंत्र शब्द न रह कर लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं
- ❖ अर्थात् व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं
- ❖ उदाहरण -
  - ❖ राम वनवास को गए।
  - ❖ आज स्कूल की छुट्टी है।
  - ❖ बुद्धिमान होने के साथ-साथ विवेक भी होना चाहिए।

# पद के भेद

---

- ❖ संज्ञा
- ❖ सर्वनाम
- ❖ क्रिया
- ❖ विशेषण
- ❖ अव्यय (क्रिया विशेषण)

# पदबंध

---

- ❖ जब एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, ऐसे पद-समूह को पदबंध कहते हैं
- ❖ भेद -
  - ❖ संज्ञा पदबंध
  - ❖ सर्वनाम पदबंध
  - ❖ क्रिया पदबंध
  - ❖ विशेषण पदबंध
  - ❖ क्रिया विशेषण पदबंध



# संज्ञा पदबंध

- ❖ पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं
- ❖ ये कर्ता, कर्म आदि के पूरक के स्थान पर प्रयोग होते हैं
- ❖ उदाहरण-
  - ❖ राम ने लंका के राजा रावण को मारा।
  - ❖ आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया।

# सर्वनाम पदबंध

- ❖ जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें, अर्थात् जहाँ मुख्य पद सर्वनाम होता है, तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं
- ❖ उदाहरण-
  - ❖ विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं।
  - ❖ कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो?



# विशेषण पदबंध

- ❖ जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात् जहाँ शीर्ष पद विशेषण हो, तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं
- ❖ उदाहरण-
  - ❖ मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है।
  - ❖ मुझे दो किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए।

# क्रिया पदबंध

- ❖ एक से अधिक क्रिया-पदों से बनने वाले क्रिया-रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं
- ❖ उदाहरण-
  - ❖ आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते-सुनते पढ़ते हैं।
  - ❖ वह पढ़कर, खाना खाकर सो गया।

# क्रिया-विशेषण पदबंध

- ❖ जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात् जहाँ प्रमुख पद क्रिया-विशेषण हो, तो वह क्रिया-विशेषण कहलाता है
- ❖ उदाहरण-
  - ❖ माँ कल सुबह तक आयेगी।
  - ❖ वह लगभग साढ़े पाँच बजे पहुँचा।
  - ❖ आलोचना दबी ज़बान से की जा रही थी।
  - ❖ यह सूखा बारिश न होने से हुआ।
  - ❖ यहाँ भुखमरी भूकंप की वजह से हुई।



धन्यवाद